

ग) निधि प्रवाह विवरण तैयार किजिए।

3



AS - 0656

	₹
अंश पूंजी का निर्गमन	25,000
लाभांश का शोधन	13,000
संचालन से लाभ	15,000
कर का शोधन	6,500
संयंत्र क्रय	24,000
कार्यशील पूंजी में घट	3,500

B.Com. Part - II

Corporate Accounting

P. Pages : 32

Time : Three Hours

Max. Marks : 70

- Notes : 1. Attempt all **five** questions.
2. All questions carry equal marks.

ह) एम. बी. कं. लि. के निम्न स्थितिविवरण से कार्यशील पूंजी में परिवर्तन विवरण तैयार किजिये।

3

स्थितिविवरण

देयताएँ	2015 ₹	2016 ₹	संपत्तियाँ	2015 ₹	2016 ₹
अंशपूँजी	90,000	1,05,000	रोक	27,000	18,000
ऋणपत्र	30,000	22,500	संवरण स्क्रैप	97,680	1,17,630
उत्तमर्ण	93,000	87,000	प्राप्यविपत्र	64,050	57,000
लाभहानि लेखा	16,680	32,130	यंत्र सामग्री	40,950	54,000
	2,29,680	2,46,630		2,29,680	2,46,630

1. Mayur Company Ltd. issued 2000 shares each of ₹ 100/- on ₹ 5 premium. Amount was payable as follows.
On Application - ₹ 30 per share
On Allotment - ₹ 30 per share [Including Premium]
On First call - ₹ 30 per share
On Final call - ₹ 15 per share
Applications received for 2200 shares, of which company has rejected applications for 200 share and the application money thereon was refunded. All the amount were received but Mr. Kalpesh who was allotted 100 shares did not pay First and final call money. These shares were forfeited. The forfeited shares were reissued to Shri. Nileshe as fully paid at ₹ 80/- per share.

Pass journal entry in the books of company and prepare Bank account.

OR

- M. Nisha Co-Ltd. issued 10,000 shares of ₹ 100/- each payable on following condition

On Application - ₹ 30 per share
On Allotment - ₹ 25 per share
On First Call - ₹ 25 per share
On Final Call - ₹ 20 per share

Application were received for 12,000 shares.
The remaining applications were rejected and the application money was refunded.
All money dues were received except the final call on 100 shares.

Pass the journal entries in the books of M. Nisha Co. Ltd. and prepare Bank Account & Balance sheet.

2. a) From the following balances prepare the 'Trading Account' of 'A' Co. Ltd. for the year ended 31st March 2016

Particular	Amount (₹)
Opening stock	50,000
Purchases	2,05,000
Carriage inward	9,000
Sales	4,10,000
Wages	70,000
Return outwards	5,000
Octroi	4,000
Return Inwards	10,000
Carriage outwards	4,000

At the end of the year stock was valued at ₹1,00,000/-

- b) From the following balances prepare the Profit and Loss Account of Ajay Company Ltd. for the year ended on 31st March 2016.

Particular	Amount (₹)
Gross profit	58,000

- ब) राज कं. लि. के निम्न स्थितिविवरण से कार्यशिल पूंजी में परिवर्तन का विवरण तैयार किजिये।

स्थितिविवरण

देयताएँ	2015 ₹	2016 ₹	संपत्तियाँ	2015 ₹	2016 ₹
अंशपूँजी	1,80,000	2,25,000	रोक	30,000	47,000
सामान्य संचय	20,000	25,000	अध्यमर्ण	1,20,000	1,15,000
उत्तमर्ण	70,000	45,000	स्कंध	80,000	90,000
लाभा-हानि लेखा	10,000	23,000	ख्याती	10,000	8,000
			भूमी	40,000	58,000
	2,80,000	3,18,000		2,80,000	3,18,000

- क) भूमी एवं भवन खाता तैयार किजिए।

₹
भूमी एवं भवन का प्रारंभण आधिक्य - 2,00,000
भूमी एवं भवन का संवरण आधिक्य - 1,70,000
भूमी एवं भवनपर ₹ 20,000 घसारा आँका गया।

- ड) निधि प्रवाह विवरण का अर्थ बताइएँ।

अथवा

- इ) निधि प्रवाह विवरण का महत्व बताइएँ।

- फ) सयंत्र लेखा तैयार किजिए।

₹
सयंत्र का प्रारंभण आधिक्य 1,40,000
सयंत्र का संवरण आधिक्य 1,92,000
चालू वर्ष में सयंत्रपर ₹ 15,000 घसारा आँका गया।

व्यापार एवं लाभ-हानि लेखा

विवरण	राशी ₹	विवरण	राशी ₹
प्रारंभण स्तंभ	13,000	बिक्री	1,20,000
क्रय	90,000	संवरण स्तंभ	15,000
आगत वाहन व्यय	2,000		
सकल लाभ	30,000		
	1,35,000		1,35,000
किराया, दर एवं बिमा	1,800	सकल लाभ	30,000
संचालक शुल्क	2,000		
वेतन	5,100		
कार्यालय व्यय	4,800		
प्रवासी अभिकर्ता का वर्तन	1,200		
अवहार	1,500		
बुडीत ऋण	300		
अकेक्षण शुल्क	750		
अवक्षयन	600		
ऋणपत्र ब्याज	450		
प्रारंभिक व्यय	500		
शुद्ध लाभ	11,000		
	30,000		30,000

1 एप्रिल 2015 से 31 जुलै 2015 तक बिक्री ₹ 30,000 थी।
कम्पनिका समामेलन पूर्व एवं समामेलन बाद का लाभ आगणित
कीजिये।

5. अ) निधीप्रवाह विवरण तैयार किजिए।

	₹
संपत्ती विक्रय	7,00,000
ऋणपत्र निर्गमन	5,00,000
भूमी क्रय	13,00,000
अंश निर्गमन	12,00,000
संचालनसे आय	4,00,000
कार्यशील पूंजी में वृद्धि	15,00,000

Salary	10,000
Insurance	2,800
Discount paid	1,500
Rent and Taxes	5,500
Travelling Expenses	4,800
General Expenses	7,400

Adjustment

Prepaid Insurance ₹300/-

c) From the following information of 'Sunil Co. Ltd.' Prepare profit and loss Appropriation Account.

Particular	₹
Net profit	64,28,500
Interim Dividend	12,60,000
Previous year's profit	10,40,000
Transfer to Dividend	
Equalisation fund	16,80,000

d) Prepare the balance sheet of Bharat Co. Ltd. as on 31st March 2016.

Particular	₹
Authorised share capital [1,00,000 shares of ₹10/- each]	10,00,000
Paid up share capital [60,000 shares of ₹10/- each]	6,00,000
Profit and Loss A/c (Cr)	2,80,000
6% Debenture	2,00,000
Creditors	1,40,000
Dividend Equalisation fund	60,000
Land and Building	4,00,000
Closing stock	2,00,000
Debtor	1,80,000
Cash at bank	5,00,000

OR

- e) Prepare a 'Trading Account' of the Jayesh Co. Ltd. from the information given below. 4

Particular	₹
Opening stock	25,000
Purchases	1,55,000
Wages	2,700
Carriage on purchases	1,250
Coal, Gas & water	11,500
Sales	2,60,000
Octroi	780
Closing stock	19,000

- f) Prepare a Profit and Loss Account of the Kunal Co. Ltd. for the year ended 31st March 2016. 4

Particular	₹
Gross profit	2,30,000
Salaries	1,05,000
Rent	38,000
Office Expenses	14,000
Bad Debts	1,225
General Expenses	4,500
Stationery	3,400
Discount Allowed	2,400
Discount Received	5,200
Advertisement	7,650
Insurance	2,300

- g) From the following information prepare the profit and loss appropriation account of 'Nitin Co. Ltd. for the year ended 31st March 2016. 3

Particular	₹
Provision for Reserve Fund	1,40,000
Dividend Equalisation fund	25,000

4.

शांती लि. और सागर लि. ने समीक्षणद्वारा एक नयी कं. शांतीसागर लि. के निर्माण का समझौता किया। उनके आर्थिक (तुलनपत्र) पक्के चिट्ठे निम्न हैं।

पक्के चिट्ठे
31 मार्च 2016 के लिये

विवरण	शांती कं. लि. ₹	सागर कं. लि. ₹
देयताएं		
अंशपूंजी		
10 रु. वाले 75,000 अंश	7,50,000	----
10 रु. वाले 45,500 अंश	---	4,55,000
लेनदार	33,000	20,000
संचय	42,000	---
लाभ-हानि खाते	8,000	45,000
	8,33,000	5,20,000
संपत्तियां		
साख	3,00,000	2,00,000
भवन	1,00,000	---
सयंत्र व मशीनें	1,83,000	1,34,500
स्टॉक	1,60,000	1,15,500
देनदार	75,000	60,000
रोकड़	15,000	10,000
	8,33,000	5,20,000

नयी कंपनी द्वारा सभी संपत्तिया और दायित्व ले लिये गये यह मानते हुए शांती लि. की पुस्तको में पंजी प्रविष्टिया कीजिए। और शांतीसागर कं. लि. का पक्का चिट्ठा बनाईये।

अथवा

रुपा कं. लि. का समामेलन 1 अगस्त 2015 को हुआ। इस कंपनीने दिपा कं. लि. का चालू व्यापार 1 एप्रिल 2015 को खरीद लिया। 31 मार्च 2016 समाप्त होने वर्ष का व्यापार एवं लाभ-हानि लेखा निम्ननुसार है।

ऋणपत्र	19,000
संपत्ति से प्राप्त राशी	
भूमि और भवन	45,000
सयंत्र	36,500
फर्निचर	2,500
निस्तारण व्यय	3,200

ग) मि. जगदिश के व्यवसाय से निम्नांकित विवरण उपलब्ध है। 3

- पूंजी विनियोजित ₹ 50,000
 - व्यापारिक लाभ
2012 - ₹ 12,200
2013 - ₹ 15,000
2014 - ₹ 2,000 (हानी)
2015 - ₹ 21,000
 - विनियोग पर ब्याज का बाजार दर - 8%
 - व्यापार से विनियोजित पूंजी का जोखिम वापसी दर - 2%
 - मालिक का मेहनताना प्रतिवर्ष - ₹ 3,600
- साख का मूल्यांकन तीन वर्ष के अत्याधिक लाभ की खरीद पद्धति के आधार पर कीजिए।

ह) निम्नलिखित जानकारी से निस्तारक के देय पारिश्रमिक का आगणन कीजिए। 3

अप्रतिभूत उत्तमर्ण और निस्तारक के पारिश्रमिक के लिए उपलब्ध राशी	₹1,15,000
अप्रतिभूत उत्तमर्ण	₹1,15,000
अप्रतिभूत उत्तमर्ण को दी जाने वाली राशिपर निस्तारक का पारिश्रमिक 4% है।	

Profit and Loss A/c (Cr)	
(31 st March 2015)	60,000
Interim Dividend paid	38,000
Profit and Loss A/c (Cr)	
(31 st March 2016)	3,20,000

h) Prepare a Balance Sheet of 'Prabha Co. Ltd. as on 31st March 2016. 3

Particular	₹
Share capital	5,00,000
Building	2,50,000
Furniture	80,000
Bills Receivable	12,000
Bills payable	15,000
Sundry Debtors	97,000
Sundry Creditor	1,58,000
Investment	1,00,000
Cash in hand	2,500
Cash at bank	75,000
Net profit	1,10,500
Closing stock	1,67,000

3. a) Explain needs of the valuation of shares. 4

b) Prabhat Co. Ltd. went into liquidation on 1st April 2016. Prepare the liquidations final statement of account. 4

Particular	₹
Secured Creditors	1,03,750
Preferential creditors	10,000
Unsecured creditors	50,000
Liquidation Expenses	1020
Realisation of Assets	1,60,000

Remuneration of 3% on realized assets and 2% on the amount distributed to unsecured creditors.

- c) The following particular are available of business carried by Shri. Shashibhai. **3**

Particular	₹
i) Capital employed	1,90,000
ii) Trading profit	
2011 -	16,000
2012 -	20,000
2013 -	19,000
2014 -	22,000
2015 -	24,000

iii) Normal Rate of profit - 10%.

Compute the value of Goodwill on the basis of 4 years purchase of super profit Method.

- d) Calculate Liquidator's remuneration from the following information. **3**

	₹
i) Amount available for unsecured creditors and liquidator's remuneration	85,000
ii) Unsecured creditor's	90,000

The liquidator's is allowed 5% remuneration on amount paid to unsecured creditor's.

OR

- e) Write the factors influencing valuation of shares. **4**

- f) A company which has gone into voluntary liquidation from the following information prepare liquidator's final statement of account. **4**

- क) श्री. शशिभाई के व्यवसाय से निम्नांकित विवरण उपलब्ध है। **3**

विवरण	₹
i) पूंजी विनियोजित	1,90,000
ii) व्यापारिक लाभ:	
2011-	16,000
2012 -	20,000
2013 -	19,000
2014 -	22,000
2015 -	24,000

iii) लाभ का सामान्य दर - 10%

साख (Goodwill) का मूल्यांकन चार वर्ष के अत्याधिक लाभ की खरीद के आधार पर कीजिये।

- ड) निम्नलिखित जानकारी से निस्तारक के देय पारिश्रमिक का आगणन कीजिये। **3**

	₹
i) अप्रतिभूत उत्तमर्ण और निस्तारक के पारिश्रमिक के लिए उपलब्ध राशि	85,000
ii) अप्रतिभूत उत्तमर्ण	90,000

अप्रतिभूत उत्तमर्ण को दी जानेवाली राशि पर निस्तारक को 5% पारिश्रमिक देना है।

अथवा

- इ) अंशों के मूल्यांकन को प्रभावित करनेवाले घटक लिखिए। **4**

- फ) एक प्रमंडल का स्वेच्छा समापन हुआ। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर निस्तारक का अंतिम हिशेब पत्रक तैयार किजिए। संपत्ती के वसूली मूल्य पर 2% पारिश्रमिक और अप्रतिभूत उत्तमर्ण को वितरित राशि पर 2% पारिश्रमिक निस्तारक को दिया जायेगा। **4**

	₹
पूर्वाधिकार उत्तमर्ण	22,000
अप्रतिभूत उत्तमर्ण	63,000

ह) प्रभा कं. लि. का 31 मार्च 2016 का स्थिति विवरण तैयार किजिए।

3

विवरण	₹
अंश पूंजी	5,00,000
भवन	2,50,000
उपस्कर	80,000
प्राप्य विपत्र	12,000
देय विपत्र	15,000
विविध अधमर्ण	97,000
विविध उत्तमर्ण	1,58,000
विनियोग	1,00,000
हस्तस्थ रोख	2,500
बैंक में रोख	75,000
शुद्ध लाभ	1,10,500
संवरण स्कंध	1,67,000

3. अ) अंश मूल्यांकन की आवश्यकता स्पष्ट किजिए।

4

ब) प्रभात कं. लि. का 1 अप्रैल 2016 को निस्तारण हुआ। निस्तारक का अंतिम लेखा विवरण तैयार किजिए।

4

विवरण	₹
प्रतिभूत उत्तमर्ण	1,03,750
पूर्वाधिकार उत्तमर्ण	10,000
अप्रतिभूत उत्तमर्ण	50,000
निस्तारण व्यय	1,020
रोखीकृत संपत्ती	1,60,000

पारिश्रमिक 3% रोखीकृत संपत्तीपर एवं 2% अप्रतिभूत उत्तमर्ण को दिये गये राशीपर।

The liquidators is allowed to take 2% remuneration on the amount realised on sale of assets and 2% on the amount paid to unsecured creditors.

	₹
Preferential creditors	22,000
Unsecured creditors	63,000
Debentures	19,000

The assets realised following sum

Land & Building	45,000
Plant	36,500
Furniture	2,500
Liquidations expenses	3,200

g) The following particulars are available in respect of the business carried on by Mr. Jagdish. 3

i) Capital employed - ₹ 50,000

ii) Trading profit -
2012 - ₹ 12,200
2013 - ₹ 15,000
2014 - ₹ 2,000 (Loss)
2015 - ₹ 21,000

iii) Market rate of interest on Investment - 8%

iv) Investment capital risk return rate for business - 2%

v) Remuneration of the proprietor per year ₹3600/- compute the value of Goodwill on the basis of 3 year's purchase of super profit method.

- h) Calculate liquidators remuneration from the following information. 3

Amount available for unsecured

Creditors and liquidator's

remuneration ₹ 1,15,000

Unsecured creditors ₹ 1,15,000

The liquidator's is allowed 4% remuneration on amount paid to unsecured creditors.

4. Shanti Co. Ltd. and Sagar Co. Ltd. agreed to amalgamate and form new company Shantisagar Co. Ltd. The following are their balance sheets :

Balance Sheets as on 31st March, 2016

Particular	Shanti Co. Ltd (₹)	Sagar Co. Ltd (₹)
Liabilities		
Share capital:		
75000 shares of Rs.10 each	7,50,000	--
45500 shares of Rs.10 each	--	4,55,000
Creditors	33,000	20,000
Reserve	42,000	--
P & L A/c	8,000	45,000
	<u>8,33,000</u>	<u>5,20,000</u>
Assets		
Goodwill	3,00,000	2,00,000
Building	1,00,000	--
Plant & Machinery	1,83,000	1,34,500
Stock	1,60,000	1,15,500
Debtors	75,000	60,000
Cash	15,000	10,000
	<u>8,33,000</u>	<u>5,20,000</u>

Assuming that all the assets & liabilities have been taken over by the new company, pass the

कोयला, गैस एवं पाणी	11,500
विक्रय	2,60,000
चुगी	780
संवरण स्कंध	19,000

- फ) 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 'कुणाल कं. लि. का लाभहानी लेखा' तैयार कीजिए। 4

विवरण	₹
सकल लाभ	2,30,000
वेतन	1,05,000
किराया	38,000
कार्यालय व्यय	14,000
दुबा हुआ कर्ज	1,225
सामान्य व्यय	4,500
लेखन सामग्री	3,400
छूट (कसर) दि	2,400
छूट (कसर) मिली	5,200
विज्ञापन	7,650
बिमा	2,300

- ग) निम्न जानकारी से नितिन कं. लि. का 31 मार्च 2016 के लिए लाभहानि नियोजन लेखा तैयार किजिए। 3

विवरण	₹
आरक्षित निधी के लिए प्रावधान	1,40,000
लाभांश समकरण संचिती	25,000
लाभहानी लेखा (31 मार्च 2015) (समा.)	60,000
मध्य लाभांश दत्त	38,000
लाभ हानि लेखा (31 मार्च 2016) (समा.)	3,20,000

- क) सुनील प्रमंडल मर्यादीत का निम्न जानकारी से लाभालाभ 3
समायोजन लेखा तैयार कीजिये।

विवरण	₹
शुद्ध लाभ	64,28,500
मध्य लाभांश	12,60,000
गतवर्ष का लाभ	10,40,000
लाभांश समकरण निधी को	
स्थानांतरण	16,80,000

- ड) भारत कं. लि. का 31 मार्च 2016 का स्थितिविवरण तैयार 3
किजिए।

विवरण	₹
अधिकृत अंश पूंजी	
[1,00,000 अंश प्रतिअंश ₹ 10]	10,00,000
दत्त अंश पूंजी	
[60,000 अंश प्रतिअंश ₹ 10]	6,00,000
लाभ-हानी लेखा (समा)	2,80,000
6% ऋणपत्रे	2,00,000
धनको	1,40,000
लाभांश समकरण निधी	60,000
भूमी एवं भवन	4,00,000
संवरण स्क्ंध	2,00,000
अधमर्ण	1,80,000
अधिकोष रोख	5,00,000

अथवा

- इ) निम्न जानकारी से 'जयेश कं. लि. का व्यापार लेखा' तैयार 4
कीजिये।

विवरण	₹
प्रारंभण स्क्ंध	25,000
क्रय	1,55,000
मजदूरी	2,700
क्रय पर वाहन व्यय	1,250

journal entries in the books of Shanti Co. Ltd.
and prepare balance sheet of Shantisagar Co.
Ltd.

OR

Rupa Co. Ltd. was incorporated on 1st August 14
2015. The company purchased the running
business of Dipa Co. Ltd. on 1st April 2015. The
following was the Trading & Profit & Loss A/c
for the year ended 31st March 2016.

Trading and profit and loss A/c

Particular	Amt. ₹	Particular	Amt. ₹
To opening stock	13,000	By sales	1,20,000
To purchases	90,000	By closing stock	15,000
To carriage inward	2,000		
To gross profit	30,000		
	<u>1,35,000</u>		<u>1,35,000</u>
To Rent, Rates & Insurance	1,800	By gross profit	30,000
To directors fees	2,000		
To salaries	5,100		
To office expenses	4,800		
To travellers commission	1,200		
To Discount	1,500		
To Bad debts	300		
To Audit fees	750		
To depreciation	600		
To debenture interest	450		
To preliminary exp.	500		
To net profit	11,000		
	<u>30,000</u>		<u>30,000</u>

The sales from 1st April 2015 to 31st July 2015 was ₹30,000.

Calculate the profit prior to incorporation and profit after incorporation.

5. a) Prepare fund flow statement. 4

	₹
Sale of Assets	7,00,000
Issue of Debentures	5,00,000
Purchase of land	13,00,000
Issue of share	12,00,000
Retain earnings	4,00,000
Increase in working capital	15,00,000

b) From the following balance sheet of Raj Co. Ltd. 4
make out statement of changes in working capital.

Balance Sheet

Liabilities	2015 ₹	2016 ₹	Assets	2015 ₹	2016 ₹
Share capital	1,80,000	2,25,000	Cash	30,000	47,000
General reserve	20,000	25,000	Debtors	1,20,000	1,15,000
Creditors	70,000	45,000	Stock	80,000	90,000
Profit & loss A/c	10,000	23,000	Goodwill	10,000	8,000
			Land	40,000	58,000
	2,80,000	3,18,000		2,80,000	3,18,000

c) Prepare land and building Account 3

	₹
Opening balance of land & building	2,00,000
Closing balance of land & building	1,70,000
Depreciation charge on land & building	₹ 20,000/-

2. अ) निम्न शेष से 'अ' कं लि का 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होनेवाले 4
वर्ष के लिये 'व्यापार लेखा' तैयार कीजिए।

विवरण	राशी (₹)
प्रारम्भिक स्कंध	50,000
क्रय	2,05,000
आगत वाहन व्यय	9,000
बिक्री	4,10,000
मजदूरी	70,000
निर्गत प्रत्याय	5,000
चूंगी	4,000
आगत प्रत्याय	10,000
निर्गत वाहन व्यय	4,000

वर्ष के समाप्त में स्कंध का मूल्यांकन ₹ 1,00,000 लगाया गया।

ब) निम्न शेष से अजय कं. लि. का 31 मार्च 2016 को समाप्त होनेवाले 4
वर्ष के लिये 'लाभालाभ लेखा' तैयार किजिये -

विवरण	राशी (₹)
सकल लाभ	58,000
वेतन	10,000
बिमा	2,800
अवहार दिया	1,500
भाडा एवं कर	5,500
प्रवास व्यय	4,800
सामान्य व्यय	7,400

समायोजना

पूर्वदत्त बिमा - ₹ 300

हिंदी माध्यम

- सूचनाएँ :- 1. सभी पाँच प्रश्न अनिवार्य हैं।
2. सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

1. मयुर कंपनी लि. ने 2,000 अंश प्रति अंश ₹ 100 का ₹ 5 प्रव्याजीपर निर्गमित किये।
राशी निम्नप्रकार देय थी-
आवेदनपर - ₹ 30 प्रतिअंश
आवंटनपर - ₹ 30 प्रतिअंश (प्रव्याजीसहीत)
प्रथम याचनापर - ₹ 30 प्रतिअंश
अंतिम याचनापर - ₹ 15 प्रतिअंश
2,200 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जिनमे से कंपनीने 200 अंशों के आवेदन अस्विकृत किये और उनकी आवेदन राशी लौटायी गयी। सभी राशी प्राप्त हुई सिर्फ श्री. कल्पेश जिनको 100 अंश आवंटीत किये थे। उन्होने प्रथम और अंतिम याचना राशी नहीं दी। यह अंश जप्त किये गये। जप्त किये हुए अंश श्री. निलेश को प्रति अंश ₹ 80 पूर्ण दत्त समझकर पुनर्निर्गमित किये गये। प्रमंडल के लेखा पुस्तक में पंजी प्रविष्टियाँ कीजिये तथा अधिकोष लेखा तैयार कीजिये।

अथवा

- एम. निशा कंपनी लि. ने 10,000 अंश प्रति अंश ₹100 मूल्य पर निम्नशर्तोंपर निर्गमित किए
आवेदनपर - ₹ 30 प्रतिअंश
आवंटनपर - ₹ 25 प्रतिअंश
प्रथम याचनापर - ₹ 25 प्रतिअंश
अंतिम याचनापर - ₹ 20 प्रतिअंश
12,000 अंशों के लिये आवेदन प्राप्त हुए। ज्यादा के आवेदन अस्विकार किये गये और उनपर प्राप्त हुई राशि लौटाई गई। 100 अंशोंकी अंतिम याचना राशि छोड़कर सभी राशि प्राप्त हुई।
एम. निशा कं. लि. के पुस्तक में पंजी प्रविष्टियाँ कीजिये। तथा अधिकोष लेखा और स्थितिविवरण तैयार कीजिये।

- d) What do you mean by fund flow statement? 3

OR

- e) State importance of fund flow statement. 4
f) Prepare Plant Account. 4

	₹
Opening balance of plant	1,40,000
Closing balance of plant	1,92,000
Current year Depreciation charged on plant was ₹ 15,000/-	

- g) Prepare Fund Flow statement. 3

	₹
Issue of share capital	25,000
Payment of dividend	13,000
Profit from operation	15,000
Payment of tax	6,500
Purchase of plant	24,000
Decrease in working capital	3,500

- h) From the following balance sheet of M. B. Co. Ltd. make out statement of changes in working capital. 3

Balance sheet

Liabilities	2015 ₹	2016 ₹	Assets	2015 ₹	2016 ₹
Share capital	90,000	1,05,000	Cash	27,000	18,000
Debenture	30,000	22,500	Closing stock	97,680	1,17,630
Creditors	93,000	87,000	Bills receivable	64,050	57,000
P & L A/c	16,680	32,130	Machinery	40,950	54,000
	2,29,680	2,46,630		2,29,680	2,46,630

मराठी माध्यम

- सूचना :- 1. सर्व पाच प्रश्न सोडवा.
2. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. मयुर कंपनी लि. ने 2000 अंश प्रति अंश ₹ 100 चा ₹ 5
प्रव्याजीवर निर्गमित केले. राशी खालील प्रमाणे देय होती. 14
आवेदनावर - ₹ 30 प्रतिअंश
आवंटनावर - ₹ 30 प्रतिअंश (प्रव्याजीसह)
प्रथम याचनेवर - ₹ 30 प्रतिअंश
अंतिम याचनेवर - ₹ 15 प्रतिअंश
2200 अंशासाठी आवेदन पत्र प्राप्त झाले. पैकी प्रमंडळाने 200
अंशाचे अर्ज नामंजूर करून त्यावरील आवेदन राशी परत केली.
सर्व राशी मिळाली शिवाय श्री. कल्पेश यांना 100 अंश आवंटीत केले
होते. त्यांनी प्रथम आणि अंतिम याचना राशी दिली नाही. हे अंश
जप्त करण्यात आले. जप्त केलेले अंश श्री. निलेशला प्रति अंश ₹
80 प्रमाणे पूर्ण दत्त म्हणून पुनर्निर्गमित केले.
कंपनीच्या लेखा पुस्तकात पंजी प्रविष्ट्या करा तसेच अधिकोष
लेखा तयार करा.

किंवा

- एम. निशा कंपनी लि. ने 10,000 भाग प्रत्येकी ₹ 100 प्रमाणे 14
खालील अटीवर निर्गमित केले.
अर्जासोबत - ₹ 30 प्रतिभाग
आवंटनावर - ₹ 25 प्रतिभाग
प्रथम हप्ता - ₹ 25 प्रतिभाग
अंतिम हप्ता - ₹ 20 प्रतिभाग
12,000 भागांकरिता अर्ज प्राप्त झाले. जास्तीचे अर्ज नामंजूर
करण्यात आले व त्यावरील राशी परत केली गेली.
100 भागांवरील अंतिम हप्त्याची राशी सोडून बाकी सर्व राशी
मिळाली.
एम. निशा कं लि. च्या पुस्तकात किर्दनोंदी द्या आणि अधिकोष
खाते व ताळेबंद तयार करा.

- ड) निधीप्रवाह विवरण म्हणजे काय? 3

किंवा

- इ) निधीप्रवाह विवरणाचे महत्त्व सांगा. 4
फ) सयंत्र लेखा तयार करा. 4

	₹
सयंत्राचे प्रारंभण आधिक्य	1,40,000
सयंत्राचे संवरण आधिक्य	1,92,000
सयंत्रावर चालू वर्षात 15,000 ₹ घसारा आकारला.	

- ग) निधीप्रवाह विवरण तयार करा. 3

	₹
भाग भांडवल निर्गमन	25,000
लाभांशाचे शोधन	13,000
संचालनापासून नफा	15,000
करशोधन	6,500
सयंत्र खरेदी	24,000
कार्यशील पूंजीत घट	3,500

- ह) एम. बी. कं. लि. च्या खालील ताळेबंदावरून कार्यशील पूंजीत 3
परिवर्तन दर्शविणारे विवरण तयार करा.

ताळेबंद

देयता	2015 ₹	2016 ₹	संपत्ती	2015 ₹	2016 ₹
भागभांडवल	90,000	1,05,000	रोकड	27,000	18,000
ऋणपत्र	30,000	22,500	संवरण स्कंध	97,680	1,17,630
उत्तमर्ण	93,000	87,000	प्राप्यविपत्रे	64,050	57,000
लाभालाभ लेखा	16,680	32,130	यंत्र सामुग्री	40,950	54,000
	2,29,680	2,46,630		2,29,680	2,46,630

कर्जरोख्यावर व्याज	450		
प्रारंभिक खर्च	500		
शुद्ध लाभ	11,000		
	30,000		30,000

1 एप्रिल 2015 ते 31 जुलै 2015 ची विक्री 30,000 ₹ होती. कंपनीचा समामेलनपूर्व व समामेलननंतरचा नफा आगणित करा.

5. अ) निधीप्रवाह विवरण तयार करा.

4

	₹
संपत्ती विक्री	7,00,000
ऋणपत्रांचे निर्गमन	5,00,000
भूमी खरेदी	13,00,000
भागांचे निर्गमन	12,00,000
संचालनापासून आय	4,00,000
कार्यशील पूंजीत वाढ	15,00,000

ब) राज प्रमंडळाच्या खालील स्थिती विवरणावरून कार्यशील पूंजीत परिवर्तन दर्शविणारे विवरण तयार करा.

4

स्थिती विवरण

देयता	2015 ₹	2016 ₹	संपत्ती	2015 ₹	2016 ₹
भागभांडवल	1,80,000	2,25,000	रोकड	30,000	47,000
सामान्य संचिती	20,000	25,000	ऋणको	1,20,000	1,15,000
उत्तमर्ण	70,000	45,000	स्कंध	80,000	90,000
लाभालाभ लेखा	10,000	23,000	ख्याती	10,000	8,000
			भूमी	40,000	58,000
	2,80,000	3,18,000		2,80,000	3,18,000

क) भूमी व भवन लेखा तयार करा.

3

	₹
भूमी व भवनचे प्रारंभण आधिक्य -	2,00,000
भूमी व भवनचे संवरण आधिक्य -	1,70,000
भूमी व भवनवर ₹ 20,000 घसारा आकारला	

2. अ) खालील आधिकांवरून 'अ' कं. लि. चा 31 मार्च 2016 ला संपणाऱ्या वर्षाकरिता 'व्यापार लेखा' तयार करा.

4

विवरण	राशी (₹)
प्रारंभण स्कंध	50,000
खरेदी	2,05,000
आगत वाहन व्यय	9,000
विक्री	4,10,000
मजुरी	70,000
निर्गत प्रत्याय	5,000
जकात	4,000
आगत प्रत्याय	10,000
निर्गत वाहन व्यय	4,000

वर्षाखेर मालसाठ्याचे मुल्यांकन ₹ 1,00,000 लावण्यात आले होते.

ब) खालील आधिकांवरून अजय कं. लि. चा 31 मार्च 2016 ला संपणाऱ्या वर्षाचा लाभालाभ लेखा तयार करा.

4

विवरण	राशी (₹)
सकल नफा	58,000
वेतन	10,000
विमा	2,800
अवहार दिला	1,500
भाडे व कर	5,500
प्रवास व्यय	4,800
सामान्य व्यय	7,400

समायोजना-

पूर्वदत्त विमा ₹ 300

क) सुनील कं. लि. च्या खालील दिलेल्या माहितीवरून 'लाभालाभ नियोजन लेखा' तयार करा.

3

विवरण	₹
शुद्ध लाभ	64,28,500

मध्य लाभांश	12,60,000
मागील वर्षाचा लाभ	10,40,000
लाभांश समकरण निधीला स्थानांतरण	16,80,000

इ) भारत कं. लि. चे 31 मार्च 2016 रोजीचे स्थिती विवरण तयार करा. 3

विवरण	₹
अधिकृत भाग भांडवल	
(1,00,000 भाग प्रत्येकी ₹10 चा)	10,00,000
दत्तभाग भांडवल	
(60,000 भाग प्रत्येकी ₹10चा)	6,00,000
नफा तोटा खाते (जमा)	2,80,000
6% कर्ज रोखे	2,00,000
धनको	1,40,000
लाभांश समकरण निधी	60,000
भूमी व इमारत	4,00,000
संवरण स्कंध	2,00,000
ऋणको	1,80,000
अधिकोषस्थ रोख	5,00,000

किंवा

इ) खालील माहितीवरून जयेश कं. लि. चा 'व्यापार लेखा' तयार करा. 4

विवरण	₹
प्रारंभण स्कंध	25,000
खरेदी	1,55,000
मजुरी	2,700
खरेदीवर वाहन व्यय	1,250
कोळसा, गॅस व पाणी	11,500
विक्री	2,60,000
जकात	780
संवरण स्कंध	19,000

यंत्र व सयंत्र	1,83,000	1,34,500
स्कंध	1,60,000	1,15,500
ऋणको	75,000	60,000
रोख	15,000	10,000
	8,33,000	5,20,000

नविन कंपनीद्वारा सर्व मालमत्ता व देयतांचे दायित्व स्विकारल्या गेले आहे असे समजून शांती कंपनी लि. च्या पुस्तकात किर्दनोंदी करा आणि शांतीसागर कं. लि. चा ताळेबंद तयार करा.

किंवा

रुपा कं. लि. चे सामामेलन 1 ऑगस्ट 2015 रोजी झाले. या कंपनीने दिपा कं. लि. चा चालू व्यापार 1 एप्रिल 2015 रोजी खरेदी केला. 31 मार्च 2016 रोजी संपणाऱ्या वर्षाचा व्यापार आणि लाभालाभ लेखा खालील प्रमाणे आहे. 14

व्यापार आणि लाभालाभ लेखा

विवरण	राशी ₹	विवरण	राशी ₹
प्रारंभण स्कंध	13,000	विक्री	1,20,000
खरेदी	90,000	संवरण स्कंध	15,000
आगत वाहन व्यय	2,000		
सकल लाभ	30,000		
	1,35,000		1,35,000
भाडेदर आणि विमा	1,800	सकल लाभ	30,000
संचालक शुल्क	2,000		
वेतन	5,100		
कार्यालय व्यय	4,800		
प्रवासी अभिकरताचे वर्तन	1,200		
अवहार	1,500		
अशोध्यऋण	300		
अंकेक्षण शुल्क	750		
घसारा	600		

iii) विनियोगावर व्याजाचा बाजार दर - 8%

iv) व्यापारात विनियोजित भांडवलाचा जोखीमेचा परतीचा दर 2%

v) मालकाचे मानधन प्रतिवर्ष - ₹ 3,600

ख्यातीचे मूल्यांकन तीन वर्षांच्या खरेदीच्या (अत्याधिक) 'अतिरिक्त नफा पद्धतीने' करा.

ह) निस्तारकाला द्यावयाच्या पारिश्रमिकाचे खालील माहितीवरून आगणन करा.

अप्रतिभूत धनको व निस्तारकाच्या

पारिश्रमिकासाठी उपलब्ध असलेली राशी - ₹ 1,15,000

अप्रतिभूत धनको - ₹ 1,15,000

अप्रतिभूत धनकोंना दिल्या जाणाऱ्या राशीवर निस्तारकाचा पारिश्रमिक दर 4% आहे.

3

4. शांती लि. आणि सागर लि. ने समीक्षणाद्वारे एक नवीन कंपनी 'शांतीसागर' लि. ची स्थापना केली त्याचा ताळेबंद खालील प्रमाणे आहे.

14

ताळेबंद

31 मार्च 2016 रोजीचा

विवरण	शांती कं. लि. ₹	सागर कं. लि. ₹
देयता		
10 रु. चे 75,000 भाग	7,50,000	----
10 रु. चे 45,500 भाग	---	4,55,000
धनको	33,000	20,000
निधी	42,000	---
नफातोटा खाते	8,000	45,000
	8,33,000	5,20,000
संपत्ती		
ख्याती	3,00,000	2,00,000
इमारत	1,00,000	---

फ) 31 मार्च 2016 रोजी संपणाऱ्या वर्षाकरिता कुणाल कं. लि. चा लाभालाभ लेखा तयार करा.

4

विवरण	₹
सकल नफा	2,30,000
वेतन	1,05,000
भाडे	38,000
कार्यालय व्यय	14,000
बुडीत कर्ज	1,225
सामान्य व्यय	4,500
लेखनसामुग्री	3,400
कसर दिली	2,400
कसर मिळाली	5,200
जाहीरात	7,650
विमा	2,300

ग) खालील माहिती वरून नितिन कं. लि. चा 31 मार्च 2016 ला संपणाऱ्या वर्षा करिता लाभालाभ नियोजन लेखा तयार करा.

3

विवरण	₹
राखीव निधीची तरतूद	1,40,000
लाभांश समकरण निधी	25,000
लाभालाभ लेखा 31 मार्च 2015 (समा)	60,000
मध्य लाभांश दिला	38,000
लाभालाभ लेखा 31 मार्च 2016 (समा)	3,20,000

ह) प्रभा कं. लि. चा 31 मार्च 2016 रोजीचा 'ताळेबंद' तयार करा.

3

विवरण	₹
भाग भांडवल	5,00,000
इमारत	2,50,000
उपस्कर	80,000
प्राप्य विपत्रे	12,000
देय विपत्रे	15,000
विविध ऋणको	97,000

विविध धनको	1,58,000
विनियोग	1,00,000
हस्तस्थ रोकड	2,500
बँकेतील रोकड	75,000
शुध्द नफा	1,10,500
संवरण स्कंध	1,67,000

3. अ) भागांच्या मुल्यांकनाची आवश्यकता स्पष्ट करा. 4

ब) प्रभात कं. लि. चे 1 एप्रिल 2016 ला निस्तारण झाले. निस्तारकाचे अंतिम लेखा विवरण तयार करा. 4

विवरण	₹
प्रतिभूत धनको	1,03,750
पूर्वाधिकार धनको	10,000
अप्रतिभूत धनको	50,000
निस्तारण व्यय	1,020
रोखीकृत संपत्ती	1,60,000
रोखीकृत संपत्तीवर पारिश्रमिक 3% व 2% अप्रतिभूत धनकोंना शोधन केलेल्या रकमेवर.	

क) श्री. शशिभाई यांच्या व्यवसायाचे खालील विवरण उपलब्ध आहे. 3

विवरण	₹
i) विनियोजित भांडवल	1,90,000
ii) व्यापारात लाभ	
2011-	16,000
2012 -	20,000
2013 -	19,000
2014 -	22,000
2015 -	24,000

iii) लाभाचा सामान्य दर - 10%

ख्यातीचे मुल्यांकन चार वर्षांच्या खरेदीच्या अतिरिक्त नफा पद्धतीने करा.

ड) खालील माहितीवरून निस्तारकाच्या द्यावयाच्या पारिश्रमिकाचे आगणन करा. 3

	₹
i) अप्रतिभूत उत्तमर्ण व निस्तारकाच्या पारिश्रमिकासाठी उपलब्ध असलेली राशी	85,000
ii) अप्रतिभूत उत्तमर्ण	90,000
अप्रतिभूत उत्तमर्णांना दिल्या जाणाऱ्या राशीवर निस्तारकाला 5% पारिश्रमिक द्यावयाचे आहे.	

किंवा

इ) भागांचे मूल्य प्रभावित करणारे घटक लिहा. 4

फ) एका कं. चे ऐच्छिक निस्तारण झाले. खालील माहितीवरून निस्तारकाचा अंतिम लेखा तयार करा. 4

संपत्तीच्या विक्रीवर 2% पारिश्रमिक आणि अप्रतिभूत धनकोंना दिलेल्या रकमेवर 2% पारिश्रमिक निस्तारकाला देण्यात येईल.

	₹
पूर्वाधिकार धनको	22,000
अप्रतिभूत धनको	63,000
ऋणपत्रे	19,000
संपत्ती पासून खालील प्रमाणे राशी मिळाली	
भूमी व इमारत	45,000
संयंत्र	36,500
फर्निचर	2,500
निस्तारण खर्च	3,200

ग) मि. जगदीशच्या व्यवसायाचे खालील विवरण उपलब्ध आहे. 3

i) विनियोजित भांडवल - ₹ 50,000
ii) व्यापारात लाभ
2012 - ₹ 12,200
2013 - ₹ 15,000
2014 - ₹ 2,000 (हानी)
2015 - ₹ 21,000